Supraneet Finance and Consultants Limited

Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052

Ph.: 011-42952500, Fax.: 011-42952555/27377373,

E-Mail: info@sfclindia.com,

Website: www.sfclindia.com, CIN: L65921DL1989PLC035261

25th July, 2020

Metropolitan Stock Exchange India Limited. 4th Floor, Vibgyor Towers, Plot No. C-62, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400098

Sub.: Newspaper Publications - Notice of the Board Meeting

Dear Sir,

In compliance with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclosing copies of Newspaper advertisement with respect to the Notice of the Board Meeting, published on 24th July, 2020 in the following newspapers:

- 1. The Pioneer (English newspaper)
- 2. Veer Arjun (Hindi Newspaper)

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Supraneet Finance and Consultants Ltd.**

Deepti Jain

Company Secretary

Sensex reclaims 38,000-mark

RELIANCE **RALLIES TO** LIFETIME HIGH

PTI MUMBAI

Equity benchmarks returned to winning ways on Thursday after a day's breather, propelled by market heavy-weight Reliance Industries which soared to its lifetime

After a subdued start, the 30-share BSE Sensex gained momentum in afternoon trade before finally closing at 38,140.47, up 268.95 points, or 0.71 per cent.

The benchmark ended above the 38,000-mark for the first time since March 5 this year. The wider NSE Nifty advanced 82.85 points, or 0.74 per cent, to finish at 11,215.45.

Reliance Industries accounted for the lion's share of the Sensex's gains, spurting ing high of ₹2,060.65, following reports that Amazon was eyeing a stake in the conglom-

SBI, ICICI Bank, Tech Mahindra, ITC and Kotak Bank were among the other winners, advancing as much as 3.28 per cent.

On the other hand, Axis Bank, HUL, Infosys, TCS, UltraTech Cement and L&T tumbled up to 3.80 per cent. "Benchmark indices ended

the day with gains, following positivity in the global markets. Global markets set aside the rising US-China tensions and focused on potential vaccine developments and better-thanexpected earnings numbers.

"Domestically, except for IT, most major indices were in the gains. Liquidity seems to be driving the markets. Any dip looks like it will be bought into and is likely to be short-lived, especially in the current mood of the markets when the neg-atives are being overlooked," said Vinod Nair, Head of



Tech Mahi 2.28 TCS

FTT GRAPHICS

Research at Geojit Financial

Kotak Mahi 2.14 UltraTech Cen0.67

-0.88

BSE energy, healthcare, realty, auto, oil and gas, bankex and metal indices ended up to 2.36 per cent higher, while IT, teck and telecom closed with losses. Broader BSE mid-cap and small-cap indices surged up to 0.98 per cent.

Global markets were



mixed as investors digested corporate earnings amid the overhang of mounting COVID-19 cases and US-China tensions.

Bourses in Shanghai, Seoul and Tokyo ended in the red, while Hong Kong closed higher. Stock exchanges in Europe were trading on a positive note in early deals. Meanwhile,

of Air India will be laid off' Brent crude futures rose 0.93 per cent to USD 44.70 per barrel. In the forex market, the

rupee settled on a flat note at

74.75 against the US dollar.

₹ gives up

gains to end

flat at 74.75

Mumbai: The rupee gave up day's gains to settle on a flat note at 74.75 against the US

dollar on Thursday amid

concerns over growing ten-sions between the US and

China. At the interbank

forex market, the domestic

unit opened on a strong note

at 74.65, but erased the gains

to finally close at 74.75,

unchanged from its previous

closing.

During the session, the

domestic unit witnessed an

intra-day high of 74.52 and a low of 74.87 against the US

uptick in the rupee during

the day was supported by weak greenback, foreign fund

inflows and positive domes-

tic equities, but rising tensions between the US and

China weighed on investor

sentiment and restricted the

index, which gauges the

greenback's strength against

a basket of six currencies,

rose 0.01 per cent to 94.99.

Meanwhile, the dollar

Forex traders said the

against \$

No reduction in the basic pay, dearness allowance and house rent allowance of any employee

'No employee

PNS NEW DELHI

fter strong reactions from After strong reactions from hits pilots, Air India on Thursday said that no employee of Air India will be laid off. "The meeting reiterated that unlike other carriers which have laid off large number of their employees, no employee of Air India will be laid off," the national carrier said on Twitter. It further added that there has been no reduction in the basic pay, dearness allowance and house rent allowance of any employee.

"Allowances had to be rationalised owing to the airline's difficult financial situation already exacerbated by the novel coronavirus pandemic, the statement added.

Air India further clarified that its flying crew will be paid as per the actual number of hours flown and the Board's measures regarding allowances will be reviewed as domestic and international flight operations expand gradually.

Earlier this month, India's national carrier approved a scheme enabling its Chairperson and Managing Director Rajiv Bansal to place employees on compulsory leave without pay for six months or a period of two years, extendable up to five vears. The scheme was approved during the 102nd meeting of Air India's Board of

encouraging, indicates economic recovery: Finance Secy ways to get started. But there were certain sectors like hos-

GST, I-T mop up in Q1 very

PTI ■ NEW DELHI

¬ax mop up in first quarter I of the current fiscal is "very encouraging" and indicates that the economy is recovering sooner than what was anticipated at the time of imposition of lockdown, Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey said on Thursday.

He said the Revenue Department wants to bring in self-compliance among taxpayers by making available data of all financial transactions via Form 26AS at the time of filing income tax (I-T) return.

Pandey, who is also the Revenue Secretary, said about 70 per cent of the ₹ 91,000 crore Goods and Services Tax (GST) collected in June is on account of transactions in May.

"For the month of June, going by the current trends, we have certain trend about how many people have made payment so far, and also the e-way bill...Truck movement...All these things are giving encouraging signals that the economy is coming back to the realm sooner than what was being anticipated when the lockdown was started in March," he said while addressing a Ficci event here.

Besides, income tax collection, by way of advance tax and TDS, in the April-June quarter was about 80 per cent of what was collected in the same period last year. "These two numbers - GST and income tax - are encouraging numbers and also gives us some hope that wherever possible businesses are finding

pitality, education, tourism, which are facing difficulty," Pandey added.

The Government had in May notified revised Form 26AS which would have additional details on taxpayers' high-value financial transactions like cash deposit/withdrawal, property purchases undertaken during a financial year, and would facilitate voluntary compliance and ease of

e-filing of I-T returns.

Pandey said if a person sees all his transaction at one place, it makes return filing easy and helps honest taxpayers. It also sends a message to those persons who are on the borderline, and they would also try to be on the right side

"What we want to promote is self-compliance instead of somebody being sent a notice and then somebody going through some kind of harrasment or difficulty, we are making all those information available," he added.

With regard to digital lending by banks, Pandey said if tax-payment profile of a loan applicant is made available to the banks, it would make it easier for lenders to assess how much loan can be extend-"...We have all these infor-

mations, these information can be shared in a secured manner...We are working on that, we had several sounds of meetings with several stakeholders and we are working on this," he

Indian economy set for post-Covid-19 rebound as FDI remains buoyant, says IHS Markit

New Delhi: The Indian economy is likely to rebound in the second half of 2020 as the impact of the COVID-19 pandemic recedes, and is projected to grow by 6.7 per cent in the next financial year, IHS Markit said on Thursday.

The pandemic resulted in severe disruptions in industrial production and consumption spending in India during April and May.

"The severe negative impact is expected to result in significant contraction in GDP in the April-June quarter of 2020, resulting in a recession in the 2020-21 financial year with GDP expected to contract by 6.3 per cent year-on-year," it said in its outlook on the Indian economy. However, as lockdown

conditions have been progressively eased, early signs of recovery were evident in the most recent economic data.

The IHS Markit Purchasing Managers' surveys for India showed that economic momentum improved in June, reflecting the easing of COVID-19 related restrictions during May and June.

India imposed a total lockdown beginning March 25 and restrictions were eased that the Indian economy will rebound as the impact of the pandemic recedes, with improving economic growth momentum in the second half of 2020 and positive GDP growth of 6.7 per cent in the 2021-22 financial year," said Rajiv Biswas, Asia Pacific Chief Economist at IHS Markit.

Despite the negative shortterm shocks from the pandemic, total foreign direct investment into India has remained buoyant. Foreign direct investment by technology firms in the first seven months of 2020 has already reached around USD 17 billion, boosted by the USD 10 billion new investment announced by Google in mid-July.

SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052 : 011-42952500, Fax: 011-42952555 E-Mail: info@sfclindia.com Website: www.sfclindia.com CIN: L65921DL1989PLC035261

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 (the Listing Regulations) that meeting of the Board of Directors of the company will be held on Friday, the 31* July, 2020 at 3:30 p.m. at Regd. Office of the company, inter-alia, to consider & approve the audited Financial Results for the Quarter / Year ended 31st March, 2020 and any other matter with the permissio

Regulation 47(2) of the Listing Regulations that the further details may be accessed or Company's website (www.sfclindia.com) and may also be accessed on website of Metropolitan Stock Exchange (www.msei.in Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in shares of the Company has been closed from 1st Apri 2020 till 48 hours after the said financial results are declared to the Stock

Jio tops Trai's 4G chart with 16.5 mbps download speed in June

D eliance Jio topped 4G speed Rchart with an average download speed of 16.5 megabits per second (mbps) in Iune, while Vodafone and Idea led in terms of upload speed, according to Trai data. Idea followed Jio in download

speed chart with 8 mbps speed,

IANS NEW DELHI

avirus pandemić.

Govt wants PSUs to trigger

Steel, and the Chairman Railway Board along with the CMDs of 7 CPSEs belonging to the CMDs of 7 CPSEs belonging to the CAPEX target of ₹30,420 crore for the 7 CPSEs, the achievement was ₹25,974 crore

change in investment

climate hit by Covid

overnment has asked

Undertakings (PSUs) to com-

plete all their planned capex for

FY21 on time and become

vehicles of growth for the economy hit by the coron-

on a standstill, the Govt wants

companies administered by it

to change the mood in the

country by stepping up expen-

diture and generating eco-

nomic activity that results in

income generation and job

held by the Finance Minister

Nirmala Sitharaman on

Thursday with Secretaries of

Ministries of Civil Aviation,

these Ministries, the Finance

Minister said that better per-

formance of CPSEs can help

the economy in a big way to

recover from the impact of

With private investment

the latest data published on Trai's Myspeed portal showed. The Telecom Regulatory

Authority of India (Trai) recorded average download speed of 7.5 mbps and 7.2 mbps on 4G network of Vodafone and Bharti Airtel in

For upload speed, Vodafone and Idea led the

COVID-19.In this regard, she

said it is important that CPSEs

vided to them for FY21 is

time". Sitharaman asked secre-

taries to closely monitor the

performance of CPSEs in order

to ensure capital expenditure to

the tune of 50 per cent of cap-

planning should be done in

advance and all unresolved

issues should be brought before

the ministry for immediate

solution. The concern this year

is that sluggish economic activ-

and sagging demand condi-

tions may also push PSUs to

step back on their invest-ments.In FY 2019-20, against

i.e. 85%. In Q1 (FY 2019-20)

achievement was ₹3,878 crore

(13%) and achievement of Q1

(FY 2020-21) has slowed down

ount of COVID-19

She said that to achieve this

ital outlay by Q2 2020-21.

spent properly and within

ensure that capital outlay pro-

chart with speed of 6.2 mbps each. Jio and Airtel recorded average upload speed of 3.4 mbps each. Download speed helps in

accessing messages, pictures, videos, etc., sent by others while upload speed helps subscribers in sending messages pictures, etc., to their con-

Green shoots of recovery to sprout faster in non-metro markets, says EY survey

PTI NEW DELHI

The green shoots of recovery 1 are expected to grow faster in non-metro markets due to "higher resilience" shown by non-metro cities during the COVID-19 pandemic, says a survey by consultancy firm The EY survey, which

polled over 4,000 respondents equally divided between metro and non-metro markets, was conducted to ascertain the potential impact of pandemicrelated disruptions on con-

Categories like consumer goods, travel, entertainment, automobiles and white goods are all expected to see increased and faster recovery of demand from non-metro markets post the lockdowns, it added.

"Non-metro markets have shown higher resilience than metro markets in our study and could recover faster. The percentage of respondents who expected to spend more than before on a majority of categories was much higher in non-metro markets, indicating that when the lockdowns end green shoots of recovery would probably sprout faster in these markets," EY said. Respondents in non-met-

ros are expected to spend much more on consumer goods, travel, outdoor and automobiles as compared to their metro counterparts, it said. According to EY India Partner

and Media & Entertainment COVID-19 pandemic has radically shifted way of life.

"However, despite uncertain and challenging conditions, our research shows that nonmetros express a higher degree of resiliency and a resolve to bounce back quicker compared to metros. We may see long-term and even permanent changes in consumption pat-

Extend by 2 years compulsory gold 'hallmarking', urges CAIT IANS NEW DELHI ing the festive season starting is also the most important

iting higher prices and low Csupply, the Confederation of All India Traders on Thursday urged the Centre to extend the provision for compulsory gold Hallmarking by two years, so that leftover stock can enter the market.

On Thursday, gold prices went up to ₹51,500 per 10 gram, while silver ended at ₹62,000 per kg, CAIT said adding that the safe asset class has gained demand as an outcome of the Covid-19 induced economic turbulence.

Accordingly, the confederation expects a sustained demand for gold and silver dur-

Prior

approval

must for

Pledge of over 5% equity

in insurance company

New Delhi: IRDAI on

Thursday said sale, purchase

and pledge of equity in excess

from Raksha Bandhan on August 3.

per 10 grams on Diwali. According to Praveen

Khandelwal, Secretary General, CAIT and Pankaj Arora, National Convenor of All India Jewelers and Goldsmith Federation, silver price is expected to be in a range of ₹72,000 to ₹75,000 per kilogram. He was quoted as saying in a statement: "Gold has always been the best and safest choice of investment for the customers as gold prices generally keep on increasing

The confederation expects gold prices to touch ₹55,000

invest ment for traders which Prior to the lockdown, gold

prices stood at ₹41,000 per 10 grams and that of silver was at ₹40,000 per kg and now in a period of just 4 months there is an increase of 28-30 per cent in gold and in silver the increase is of about 45 per cent, he said. The confederation said that to allow the jewellers to liquidate their old stocks, the Centre should provide a further extension of 2 years, in the view of Covid-19 disruption. Earlier, the Centre had made 'Hallmarking' on every gold item compulsory from January

Rossari Biotech makes blockbuster stock market debut zooms 77 pc

New Delhi: Shares of specialty chemicals manufacturing firm Rossari Biotech made a stellar debut on the bourses on Thursday, and closed nearly 77 per cent higher against its issue price of ₹ 425 per share. The stock touched its highest trading permissible limit for the day on the BSE as well as NSE.

The stock listed at ₹670, registering a gain of 57.64 per cent on its issue price on the BSE. During the day, it jumped 89.17 per cent to ₹804 - its upper circuit limit. It finally closed at ₹742.35, up 74.67 per cent.On the NSE, it closed at ₹752, a gain of 76.94 per cent. During the day, it jumped 88.96 per cent to ₹803.10

in IPO for many months since COVID epidemic started. Rossari Biotech's success in retail, HNI and institutional segments brings a good omen and shows tremendous appetite for good quality equity paper in Indian markets," BSE CEO Ashishkumar Chauhan CEO said on the listing.

Ashok Kumar is New Additional General Manager of East Central Railway

Hajipur: Ashok Kumar has taken over the charge of Additional General Manager, East Central Railway, Hajipur on 23.07.2020. Prior to this assignment, he was working as Chief Administrative Officer (Construction) in this Railway itself.Shri Ashok Kumar belongs to IRSE(Indian Railway Service of Engineers) batch of 1984 exam batch.

Shri Ashok Kumar has began his career on Indian Railways as Assistant Divisional



Engineer at Hapur, Northern

Railway in July 1986. During his 34 years of long illustrious career, Shri Kumar held important at Executive and Managerial posts on Indian Railways.These include Chief Engineer/North Western Railway, Jaipur; Additional Divisional Manager/North Western Railway, Jodhpur Division and Divisional Manager/South Railway, Vijayawada Division.

of 5 per cent of an insurance company's paid-up capital will need the regulator's prior approval, and any violation of the guidelines will attract action. Issuing a clarification on the 'transfer of share of the insurance companies', the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) said the provisions related to sale and pur-Railway chase of equity will also apply on creation of pledge or any Railway other kind of encumbrance Central over shares of an insurance company by its promoters.

Gold crosses ₹51,000 mark, up by ₹502 sale: IRDAI

PTI NEW DELHI

Gold prices went past ₹ 51,000 mark in the national capital, rising by ₹502 on Thursday on strong international prices, according to HDFC Securities. The precious metal rose by

₹502 to ₹51,443 per 10 gram from ₹50,941 per 10 gram in the previous trade. Silver, however, declined

by ₹69 to ₹62,760 per kg from

The second of t Senior Analyst (Commodities) Tapan Patel said. In the international market, gold was trading higher at USD 1,875 per ounce, while silver was flat at USD 22.76 per ounce.

Reliance breaks into top 50 most valued cos globally, ranks 48

PTI ■ NEW DELHI

Billionaire Mukesh Ambani's Reliance Industries Ltd has broken into the top 50 most valued companies globally after it became the first company with market capitalisation of over ₹13 lakh crore.

The oil-to-telecom conglomerate is ranked 48th in market cap globally, according to stock market data.

Globally, Saudi Aramco is the company with the highest market cap of \$ 1.7 trillion, followed by Apple, Microsoft, Amazon, and Alphabet. Reliance on Thursday closed at

₹2,060.65 on the BSE, up 2.82 per cent over the previous day's close.

APPEAL FOR IDENTIFICATION



General public is hereby informed that this person Named: Unknown, S/o: Unknown, R/o: Unknown, Age: Approx 45 Years, Sex: Male, Height: 5'3", Face: Round, Built: Thin, Complexion: Wheatish, Wearing: Red colour Shirt, Black colour Pant, has been found dead in front of 1561 Novelty Cinema SPM Marg Delhi -06 in the area of PS. Lahori Gate, Delhi on 12.07.2020.

In this regard a DD No. 24A dated 12.07.2020 has been lodged at P.S. Lahori Gate, Delhi. Sincere efforts have been made by local police to trace out

information about this person but no clue has come to light Any person having any information or clue about this person

P.S. Lahori Gate, Delhi DP/392/N/2020(UIDB) Ph.: 011-23953776, 8750870122

SEARCH FOR MISSING PERSON



General public is here by informed that this person namely Asjad S/o Mohd. Jama R/o H.No. 153, 1st Floor, Gali Mata Wali, Chhata Lal Miyan, Chandni Mahal, Delhi Age: About 35 years, Height: 5'8", Face: Round, Complexion: Fair, Build: Medium, Identification:

colour shirt & payjama and plastic chapple in feet, has been missing since 18.07.2020 at about 08:00 P.M. from his house. In this regard DD No. 38-A dated 19.07.2020 has been lodged at P.S. Chandni Mahal, Delhi.

E-mail: cic@cbi.gov.in Website: http://cbi.nic.in Fax: 24368639,

SHO: P.S. Chandni Mahal,

APPEAL FOR IDENTIFICATION



General public is hereby informed that an unidentified dead body of a male namely Unknown, S/o: Unknown, R/o: Unknown, was found on 16.07.2020 at Trauma Center, Civil Lines, Delhi. In this regard DD No. 43-A U/s 174 CrPc dated 16.07.2020 has been lodged at Police Station, Kashmere Gate, Delhi.

Identification of unidentified dead body of male is as Name: Unknown, Age: 26 Years, Height: 5'8"

Complexion: Shallow, Face: Long, Built: Normal, Wearing: Hospital Clothes, UIDB Sr No.: UND20KG0139. If anyone has any information or clue about this

deceased male may kindly be inform undersigned.

Police Station, Kashmere Gate, Delhi Ph.: 011-23967889, 8750870123

It is further notified in pursuance of

(Deepti Jain Date: 23.07.2020 Company Secretary

The company's market valuation stood at ₹3,854.98 crore on the BSE. In terms of volume, 30.27 lakh shares were traded on the BSE during the day, while 3.57 crore shares changed hands on the NSE.

"It has been a long hiatus

may kindly inform to the following.

Mentally weak, wearing white

Any person having any information or clue about this

missing person may kindly inform to the following:-

Tel.: 24368638/24368641

Ph.: 011-23279338, 23271751, 23263967

कोविड केयर सेंटर में 14 वर्षीय एक किशोरी पर अन्य मरीज ने किया यौन हमला

वीर अर्जुन संवाददाता नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में छत्तरपुर के सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर में उपचार करा रही 14 साल की एक किशोरी पर कोरोना वायरस के एक अन्य मरीज से कथित रूप से यौन हमला

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 15 जुलाई की रात को जब किशोरी शौचालय गयी तब उसके साथ 19 साल के एक व्यक्ति ने यह हरकत की। आरोपी को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया गया और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज

बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए छत्तरपुर के राधास्वामी सत्संग ब्यास में 10000 बेड वाला यह कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस इस सेंटर का प्रबंधन संभालती है।

पुलिस के अनुसार किशोरी और आरोपी को इस सेंटर में उनके रिश्तेदारों के साथ भर्ती कराया गया था। दोनों झुग्गी में रहते थे।

लड़की ने यौन हमले की बात सेंटर में ही अपने एक रिश्तेदार को बतायी। रिश्तेदार ने आईटीबीपी के एक अधिकारी को इस मामले की जानकारी दी। अधिकारी ने पुलिस को इस विषय के बारे में बताया। लडकी की शिकायत के

अनुसार इस व्यक्ति ने उसके साथ यौन दुराचार किया और उसके साथी ने इस हरकत को मोबाइल में कैद कर लिया। हालांकि साथी ने लड़की पर यौन हमला नहीं किया।

को शिकायत के आधार पर भादंसं, यौन अपराध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मनदीप कौर सिंधु ने छात्रो को '' अधिकारी के अनुसार दोनों रोजगार में उभरती प्रवृत्तियां -चुनौतियां एंव अवसर '' पर जानकारी व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में देते हुए कहा कि अनिश्चितता के इस भेजा गया है और पुलिस मामले की दौर में भी सकारात्मक सोच रखें। जांच कर रही है तथा पीडता को महामारी का यह समय अपने व्यापार अन्य कोविड केयर सेंटर में एंव कैरियर पर अधिक ध्यान देने का



समय है। आपको इतने बड़े संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला है जहां पर लगभग हर सुविधा एंव बेहतरीन शिक्षकगण उपस्थित है ऐसे में प्लेसमेंट की बजाय अपने ज्ञान एंव कौशल से रूचि के अनुसार रोजगार की तलाश करें। सुश्री सिंधु ने कहा कि इंर्टनशिप एंव स्वैच्छिक नौकरी आपको बेहतरीन अनुभव प्रदान करती

है जिससे आपके बायोडेटा में अनुभव जुड़ता है। कई बार आपके कार्य करने के तरीके से प्रभावित होकर आप जिस कंपनी मे इंर्टनशिप कर रहे होते है वही आपको नौकरी का अवसर प्रदान करते है। कभी भी नौकरी के दौरान तनख्वाह पर अधिक विचार ना करें। कई बार कंपनियों में प्रारंभ में तनख्वाह कम रहती है किंतु आपके कार्य को देखकर साल में आपकी योग्यता के अनुरूप तनख्वाह में इजाफा हो जाता है।

सुश्री मनदीप कौर सिंधु ने कहा कि अगर आप अधिक सीखना चाहते है तो बड़े संस्थान की बजाय स्टार्टअप को प्राथमिकता दें जहां आपको सीखने के अधिक अवसर प्राप्त होगें। रोजगार को ढूंढने के लिए अपने कौशल एंव ज्ञान का उपयोग करें। रोजगार की कमी नहीं है बल्कि तन्मयता से मेहनत करने वाले कौशल युक्त लोगों की कमी है। वर्तमान समय में कोविड के कारण हॉटेल, ब्युटी, जिम, परिवहन उद्योगों में रोजगार के अवसर कम है किंतु बहु कार्यात्मक कौशल को विकसित करें और अन्य क्षेत्रों में रोजगार तलाश करें। इस अनिश्चितता के समय में जो मिल रहा है उसका खुले दिल से स्वागत करें। स्वंय के अदंर नये एंव आधुनिक कौशल को विकसित करें और स्वंय को तकनीकी युक्त बनायें। घर के अंदर घर से कार्य करने के सेटअप को विकसित करें और साक्षात्कार के दौरान उसका जिह भी करें।

सुश्री सिंधु ने कहा संकटकाल ने नये तरह के रोजगार उत्पन्न किये है जहां पर तकनीकी जानकार लोगों की आवश्यकता होगी। आज के समय में अनुभव से लिए कितने तैयार है यह अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होनें कहा कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एंव आवश्यक सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार या स्टार्टअप प्रारंभ करें या रोजगार खोजें। स्वास्थय देखभाल जिसमें टेलीमेडसिन, अस्पताल, ऑनलाइन चिकित्सीय सलाह, दवा का उत्पादन एंव मार्केटिंग सहित नये स्थानीय उत्पादों के क्षेत्र, मनोरंजन प्रदान करने वाले मंच, डिजिटल पेमेंट उद्योग, मीटिंग एप, ऑनलाइन तकनीकी, फिटनेस, ई कार्मस, ऑनलाइन खाद्य एंव ग्रॉसरी सेवा, आइटी सेवा, कटेंट राइटर, बीमा और लॉजिस्टीक के क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध है। सुश्री सिंधु ने कहा कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो प्रबंधकों की

अलग-अलग मुठभेड़ में पांच बदमाश गिरफ्तार

वीर अर्जुन संवाददाता

नोएडा। गौतम बुद्ध नगर के तीन थाना क्षेत्रों में बुधवार रात अलग-अलग मुठभेड़ों में पांच बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत ही बुधवार रात पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ के बाद पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पहली मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र में हुई, जिसमें गोली लगने से 25 हजार का इनामी बदमाश देवेंद्र घायल हो गया। उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, देशी तमंचा और कारत्स बरामद हुआ है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।आयक्त ने बताया कि पलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ नोएडा सेंट्रल जोन-2 स्थित थाना बादलपुर क्षेत्र में हुई, जहां मोटरसाइकिल पर जा रहे दो बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाबी कारवाई में बदमाश दीपक और रोहित घायल हो गए। दोनों के पास से दो तमंचे और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों का इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि दोनों ने पैसों को लेकर विवाद के चलते अपने एक रिश्तेदार की हत्या कर उसका शव जला दिया था।उन्होंने बताया कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड की तीसरी घटना थाना फेस-3 क्षेत्र में बुधवार देर रात हुई, जिसमें एक व्यक्ति का पर्स, एटीएम और मोबाइल छीन कर मोटरसाइकिल पर भाग रहे बदमाश घायल हो गए।

फरीदाबाद जिले में जजपा पार्टी में हर रोज हो रही बढ़ोतरी

वीर अर्जुन संवाददाता

अवसर '' पर व्याख्यान प्रदान किया।

सिंबाक्वार्टज़ की सीईओ सुश्री

सुनील शर्मा

फरीदाबाद। दिल्ली फार्म हाउस पर फरीदाबाद जिले वरिष्ठ जजपा नेता प्रेम सिंह धनखड के नेतृत्व में फरीदाबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तथा राजनीतिज्ञ लोगों ने जननायक जनता पार्टी के संरक्षक डा. अजय सिंह चौटाला के द्वारा पटका पहनाकर जजपा पार्टी में शामिल किया गया। इस मौके पर डा. अजय सिंह चौटाला ने सभी सम्मलित लोगों का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत करते कहा कि जिस प्रकार से फरीदाबाद में विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तथा राजनीतिज्ञ पार्टियों के लोग जजपा पार्टी में शामिल हो रहे हैं उससे फरीदाबाद में हर रोज जजपा पार्टी का जनाधार बढ रहा है व आने वाले समय में फरीदाबाद में जजपा पार्टी की एक तरफा लहर चलेगी। चौटाला ने सभी लोगों को कहा कि आपकी अपनी सरकार है लोगों के कार्य करवाकर लोगों को पार्टी से जोडने का कार्य करें।

इस मौके पर जयप्रकाश पूर्व



जननायक जनता पार्टी के संरक्षक डा. अजय सिंह चौटाला के दिल्ली निवास पर फरीदाबाद जिले के लोगों को जजपा पार्टी में शामिल करते हुए डा. अजय सिंह चौटाला तथा जजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह धनखड़ तथा

प्रधान हुड्डा कर्मचारी संगठन, जेपी चौधरी, कॅवरसेन चौधरी, श्यामबीर सन्सनवार, प्रदीप चौधरी, भगवान सिंह फौजदार, हरवीर सिंह फौजदार, डा. वेदबीर, सुरजीत सिंह, गगन सिंह, दीपक बिष्ट, सुरेश चाहर, श्रीचन्द, शैलेन्द्र चाहर, सतीश गिरधर पूर्व प्रिंसिपल, एस के भाटिया

आरडब्लूए सेक्टर 46, एस पी शर्मा आरडब्लूए सेक्टर 45, पवन सैनी पूर्व युवा हल्का प्रधान इनेलो, सुरेन्द्र प्रजापति, रोहताश पूर्व जिला उपाध्यक्ष इनैलो पिछड़ा वर्ग, रजक धोबी समाज प्रधान, विक्की सैनी पूर्व युवा हल्का उपाध्यक्ष इनेलो इत्यादि जजपा पार्टी में शामिल हुए।

इस मौके पर ठा. राजाराम, प्रेम सिंह धनखड़, ललित बंसल, कुलदीप तेवतिया पूर्व पार्षद, प्रदीप चौधरी, दीपक चौधरी पार्षद, अमर नरवत, हरदत्त जांगड़ा, मनोज गोयल, राजेश रावत, अख्तर हुसैन, रवि शर्मा, जयप्रकाश ढुल इत्यादि जजपा नेता उपस्थित रहे।

यमुना प्राधिकरण ने 12 कंपनियों को जमीन आवंटित की, भारतीय कंपनी बनाएगी मेट्रो कोच

वीर अर्जुन संवाददाता

नोएडा। जनपद गौतम बुद्ध नगर के यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भारतीय कंपनी द्वारा मेट्टो कोच बनाया जाएगा।

मेटो कोच बनाने वाली यह उत्तर प्रदेश की पहली कंपनी है। यमना प्राधिकरण ने बधवार को ऑनलाइन साक्षात्कार से 12 कंपनियों को भृमि आवंटन किया है। जिन कंपनियों को जमीन आवंटित की गई है, उनसे यमना प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 248 करोड़ का निवेश होगा, जबिक 12 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरुण वीर सिंह ने बताया कि मेट्रो कोच बनाने के लिए पीपीएस इंटरनेशनल कंपनी को 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की तर्ज पर यह भारतीय कंपनी मेट्रो कोच बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह कंपनी मेट्रो लाइट व मेट्रो के नये कोच बनाएगी। उन्होंने कहा कि जर्मन प्रौद्योगिकी के आधार पर स्टेनलेस स्टील के कोच बनेंगे। देश में अब ऐसे ही कोच वाली मेट्रो दौडेगी। हालांकि, ये कोच वर्तमान में चल रही मेट्रो के कोच से थोड़े छोटे होंगे, लेकिन इनकी गति पहले जैसे ही रहेगी। कंपनी शुरुआती दौर में यहां 115 करोड़ रुपये का

निवेश करेगी। इसके जरिये यहां पर 500 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। कंपनी वर्तमान में भारतीय रेल के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी केबल, कैटिलिवर व इलेक्ट्रकिल प्लग्स आदि बनाती है।सिंह ने बताया कि इसके अलावा कल न्य दिल्ली एक्सपोर्ट हाउस, पूजा इंटरनेशनल, अफोर्डेबल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, स्टार्टअप स्टूडियोज, राज ट्रेडिंग कंपनी, एसवीएम, शिखा मैनेजमेंट सॉल्यशन, साईं क्रिएशन, होम डयलेक्स सहित 12 कंपनियों को जमीन आवंटित की गई। उन्होंने बताया कि इस आवंटन से यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 248 करोड़ रुपये का निवेश

उन्होंने बताया कि यमुना विकास प्राधिकरण ने आज जिन कंपनियों को जमीन आवंटित किया है, उनमें सबसे अधिक कपडा कंपनियां है। इन कंपनियों को अपैरल पार्क में जमीन आवंटित की गई है। सिंह ने कहा कि प्राधिकरण ने एक वर्ष में 515 उद्योगों को जमीन आवंटित की है। यमना प्राधिकरण तीन औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है। इसमें अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क व एमएसएमई पार्क शामिल है। इसमें 8,150 करोड रुपये का निवेश होगा, जबकि सात लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

एनटीपीसी ने तिगांव स्कूल को डेस्क, मास्क व सैनेटाइजर भेंट किए

वीर अर्जुन संवाददाता फरीदाबाद। एनटीपीसी फरीदाबाद की ओर से नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत परियोजना के आसपास के राजकीय विद्यालयों में समय-समय पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों

को शिक्षा प्राप्त करने में हर सम्भव

मदद मिल सके। एनटीपीसी की अपर महाप्रबन्धक ने बताया कि एनटीपीसी की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय गांव तिगांव में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 60 ड्यल डैक्स उपलब्ध करवाए गए हैं। एनटीपीसी के इस सहयोग से विद्यालय के करीब 350 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि



एनटीपीसी के उप.महाप्रबन्धक रजनीश खेतान तिगांव के सरकारी स्कूल को मास्क व सैनेटाइजर भेंट करते हुए।

लिए 50 मास्क व 8 आठ सैनिटाइजर की बोतलें भी दी गई।

आदित्य गौड, मुख्य अध्यापिका हेमलता, लैक्करर हंसराज व अन्य

ठीक हुये जबिक संक्रमण के 68 नए मामले सामने आए हैं, इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की तादाद बढ़ कर 4,466 हो गयी है। जनपद में अबतक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। जिला निगरानी अधिकारी मनोज कश्यप ने बताया कि बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 68 नए मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि किया जा रहा है। अदालत सुहैल के जमानत इनको मिलाकर जनपद में अब तक 4,466 लोग कोविड-19 बांड की स्थिति रिपोर्ट को लेकर दायर आवेदन से संक्रमित पाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में पर स्नवाई कर रही थी जिसे फरवरी में बृहस्पतिवार को 120 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से दयालपुर इलाके में दंगों से जुड़े मामले में आठ छुट्टी दी जा चुको है जिसके साथ ही अब तक इससे ठीक होने। जुलाई। को। जमानत दी गई। थी।मुख्य। रजनीश खेतान, वरिष्ठ प्रबन्धक वाले मरीजों की संख्या बढ़ कर 3,516 हो चुकी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने 22 सत्यापन के लिए भेज दिया था। बहरहाल, अभी अधिकारी ने बताया कि जिले में 910 लोगों का विभिन्न जुलाई के आदेश में कृष्णा नगर थाने के स्टेशन अस्पतालों में उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस घातक वायरस से अबतक यहां 40 लोगों की मौत हो चुकी है।

68 नए मामले सामने आए,

नोएडा (वीअ)। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बृद्ध नगर में

नोएडा में कोरोना वायरस के दिल्ली दंगे : जमानत के 15 दिन बाद व्यक्ति को रिहा नहीं करने पर अदालत ने जवाब मांगा नई दिल्ली, (विंस)। दिल्ली की एक का तेजी से सत्यापन किया जाए।वीडियो कांफ्रेंस

बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 120 मरीज इस संक्रमण से अदालत ने दिल्ली दंगों के दो मामलों में एक व्यक्ति को 15 दिन पहले जमानत देने के बावजूद उसे जेल से रिहा नहीं किए जाने पर मंडोली जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि जमानत बांड की पुष्टि में विलंब कर उसे अनावश्यक रूप से परेशान हाउस ऑफिसर ाएसएचओा को निर्देश दिया कि सहैल द्वारा भुगतान किए गए जमानत बांड

के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान मंडोली जेल के उपाधीक्षक ने अदालत से कहा कि एक मामले में बांड का सत्यापन हो गया है लेकिन संबंधित थाने द्वारा दूसरे मामले में अभी सत्यापन नहीं हुआ है।जेल उपाधीक्षक ने सूचित किया कि कृष्णा नगर थाने के एसएचओ को 14 जुलाई और 21 जुलाई को वायरलेस संदेश दिया गया था।अदालत को बताया गया कि संबंधित थाने के डयटी अधिकारी से जल्द सत्यापन के लिए संपर्क किया गया है।अदालत ने कहा, जेल अधीक्षक ने जमानत बांड को तक आवेदक ासुहैला को रिहा नहीं किया गया

Public Notice Near Shiv Mandir. Shastri Nagar Delhi-110052 has disowned their namely Sh. Shyam Kishore and his wit font. Neetu from all their moveable an immovable properties and further severe heir all relations from them. If any perso deals with them then he is cautioned to do s entirely at his own risk, cost consequences. My clients will no esponsible for the acts, deeds and con of the aforesaid persons. Vijendra Kumar Advocate, Ch. No. 674, Western Wing Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

Public Notice ate Sh.Bhudhu Ram r/o House No. 26, Ga No 3. Block-A. Shastri Park, Nathu Pura Moo Burari, Delhi-84, has debarred and disown on Neeraj @ Pappu, from all his movable nd immovable properties due to the srespectful behaviour and out of control of v client. My client has also severed all hi leations with him, if any body deal with then a any manner he/she/T.G shall do so at hi ter own risk, cost and consequences. My client shall not be liable or responsible for th ame in any manner. Mukesh Kr. Sharma Advocate, Chamber No. 650, Wester Wing, Tis Hazari Court Complex, Delhi-5

सुप्रानीट फाइनेंस एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः सी-55/2, वजीरपर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110051 होन 011-42952500, फैक्स 011-4295255**5** ई-मेल info@sfclindia.com वेबसाइट www.sfclindia.com

CIN: L65921DL1989PLC035261 सूचना

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(क) के साथ पठित विनियम 29(1)(क) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शक्रवार 31 जुलाई, 2020 को अप. 3.30 बजे कम्पर्न के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएग जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों एवं अध्यक्ष की अनुमति के साध अन्य किसी भी विषय पर विचार एवं अनुमोद किया जाएगा। सूचीयन विनियम के विनियम 47(2) के अनुसरण में आगे अधिसूचित किय जाता है कि विस्तुत विवरण कम्पनी की वेबसाइत (www.sfclindia.com) से प्राप्त किया ज सकता है और मेटोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज कं वेबसाइट (www.msei.in) से भी प्राप्त किय जा सकता है। सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध विनियम 2015 के अनुसरण में कम्पनी के शेयर के लेनदेन के लिए ''ट्रेडिंग विन्डो'' 1 अप्रैल 2020 से स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कथित वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे तव

बंद रहेगी। कृते सुप्रानीट फाइनेंस एंड कंसल्टेंट्स लि.

स्थान: दिल्ली (दीप्ति जैन)

अदालत ने जुर्माना भरने के बाद 198 इंडोनेशियाई नागरिकों को रिहा किया

नई दिल्ली, (वीअ)। दिल्ली की एक अदालत ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 198 इंडोनेशियाई नागरिकों को बृहस्पतिवार को जुर्माना भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया। इन सभी विदेशी नागरिकों ने वीजा नियमों का उल्लंघन कर धर्म प्रचार में शामिल होने और कोविड-19 को लेकर दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का करने के साधारण आरोपों को स्वीकार करके अदालत से सजा कम करने का अनरोध किया था।

विदेशियों की ओर से पेश हुए वकीलों अहमद खान और फहीम खान और आशिमा मंडला ने बताया कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने 100 इंडोनेशियाई नागरिकों को सात-सात हजार रूपये का जुर्माना भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्वाति शर्मा ने 98 इंडोनेशियाई नागरिकों को 5-5 हजार रूपये जुर्माना भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने इन 98 विदेशी नागरिकों को जुर्मीने की राशि पीएम केयर कोष में जमा कराने का निर्देश दिया। इस मामले के शिकायतकर्ता डिफेंस कॉलोनी के उप संभागीय मजिस्ट्रेट, लाजपत नगर के सहायक पुलिस आयुक्त और निजामुद्दीन थाने के निरीक्षक ने कहा कि उन्हें अदालत के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है।

खुद को अमित शाह का निजी सचिव बताकर मंत्रियों को फोन करने वाला युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली, (वीअ)। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का कथित तौर पर निजी सचिव बनकर हरियाणा एवं राजस्थान के श्रम मंत्रियों को फोन करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार राजस्थान के अलवर जिले के तेह मुंडावर निवासी संदीप चौधरी (25) नौकरी दिलाने के लिए फोन करता था।

पुलिस के मुताबिक उसे गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर अपराध शाखा द्वारा मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया। शिकायत में कहा गया था कि एक व्यक्ति ने किसी को नौकरी दिलाने के लिए खुद को शाह का निजी सचिव बताकर हरियाणा एवं राजस्थान के श्रम मंत्रियों को कॉल किया था।

फीस आने के बावजूद अध्यापकों को नहीं दे रहे हैं तनख्वाह कर रहे हैं। मंच की ओर से सीबीएसई

वीर अर्जुन संवाददाता

अभिभावक एकता मंच ने कहा है कि स्कल प्रबंधक फीस ना आने का बहाना करके अपने अध्यापकों को तनखा नहीं दे रहे हैं और उन्हें स्कल से हटा रहे हैं जबिक हकीकत यह है कि अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार अप्रैल से जून महीने की फीस जमा करा दी है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधकों ने 8 महीने पहले किए गए नए दाखिलों में ही एडवांस में हजारों रुपए लेकर करोडों रुपए कमा लिए हैं जबिक नए बच्चों ने अभी तक स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है। स्कूलों के पास काफी रिजर्व व सरप्लस फंड्स भी है उसके बावजूद स्कूल प्रबंधक अपने अध्यापक व कर्मचारियों को तनख्वाह न देकर उनका आर्थिक व मानसिक शोषण व हरियाणा बोर्ड को आरटीआई लगाकर फरीदाबाद के प्राइवेट स्कूलों द्वारा जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक अभिभावकों से हर प्रकार से वसूली गई फीस, स्कूल की अन्य आमदनी, स्कूल के पास मौजूद रिजर्व व सरप्लस फंड की तथा अध्यापकों को दी गई तनख्वाह व अन्य मदों में किए गए खर्च के ब्योरे की जानकारी मांगी है। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व प्रदेश संरक्षक सभाष लांबा ने बताया है कि मंच की ओर से 24 जून को सीबीएसई कार्यालय प्रीत विहार दिल्ली में आरटीआई लगाकर

दिलाने के लिए कहा जाएगा उसके बाद भी अगर जानकारी नहीं मिली जो केंद्रीय सचना आयोग नई दिल्ली का सहारा लिया जाएगा।

मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी व सचिव डॉ मनोज शर्मा ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के कई अध्यापकों ने मंच को जानकारी दी है कि उन्हें पिछले तीनए चार महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिली है। तनखा मांगने पर परेशान किया जा रहा है यहां तक कि कई अध्यापकों को निकाल भी दिया गया है। आगे रोजगार न मिलने की मजबूरी से अध्यापक मजबूर होकर स्कूल प्रबंधकों के शोषण को सहन कर रहे

वीर अर्जन संवाददाता

कर मॉनिटर (टीवी) और स्पीकर के माध्यम से अपने दफ्तर के बाहर समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों के साथ संवाद कायम करते हैं। दफ्तर के बाहर भी लोगों के लिए कैमरों मॉनिटर (टीवी) और स्पीकर लगा है जिसके माध्यम से लोग अपनी समस्याएं सीधे श्री सिंह को बताते हैं और श्री सिंह मौके पर ही उनका समाधान करने के

जन समस्याओं की सुनवाई के लिए पुलिस आयुक्त ने की नई व्यवस्था निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे

फरीदाबाद। कोरोना के इस काल में लोगों के साथ उचित दूरी जरूरी है लेकिन साथ ही जनता के साथ सीधा संवाद भी नहीं रुकना चाहिए। इसी भावना के साथ पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने तकनीक का सहारा लेकर संवाद की नई व्यवस्था

श्री सिंह अपने कार्यालय में बैठ

पिछले लगभग 1 महीने में जब से पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाला है, फरीदाबाद की पुलिस व्यवस्था में एक सधार देखने को मिल रहा है।

डालते हैं। उनके साथ एसीपी हेड

क्कार्टर आदर्शदीप सिंह बैठते हैं, जो

शिकायतकर्ता का पूरा ब्यौरा लेते हैं।

बाहर वाले रूम में शिकायत कर्ताओं

होता है जो शिकायतकर्ता द्वारा दी गई

साथ कंप्लेंट ब्रांच का कर्मचारी

clients, Pradeep jain S/o Lt. Sl

Moti lal jain And his wife Sarita jair R/o H. No. 13, Gali No. 3, Ram Naga xt, Delhi-110051, have severed al elation and disowned their son Rahu in and his wife Sakshi jain and the shild Myra jain, from all their novable and immovable properties due to their misbehave/misconduct our client shall not be responsible fo heir act. K.D. Soni, Advocate. Ch No. F-713, Karkardooma Cour Complex, Shahdara, Delhi-110032.

Public Notice now all general public by this Public Notice that y client, Sh. Mohd. Ijhar S/o Late Mohd. Mohi

o C-9/236 (C-9/618) Shri Ram Colony, Khajur Delhi have disowned his Son/Daughter-in-lav named No. 1 Mohd. Asad, his wife Ms. Gulfasa an No.2 Mohd. Ibrahim, his wife Ms. Nikhat of his free ill and consent. The above named Son/Daught 1-law was beyond his control and supervision.

known to all that my clients Sh. Rajende Smt. Premvati both R/o 19/26, Wes Moti Bagh, Sarai Rohilla, Near Sh Mandir, Onkar Nagar, Delhi-110035 has lisowned their son namely Amit Kumar, his wife Aarti from all their moveable and mmovable properties and further severed eir all relations from them. If ary person eals with them then he is cautioned to do s onsequences. My clients will not esponsible for the acts, deeds and conductions. of the aforesaid persons. Vijendra Kumar Advocate, Ch. No. 674, Western Wing Γis Hazari Courts, Delhi-110054.

aswant Colony, Budh Vihar Phase-II Delhi-86 hereby disown, dis-inherit and aber their son Nitesh and his wife Sm Malti Kumari in all respects & also sever all relations with them and my clients sha not be responsible for any of their acts an anybody dealing with them sha so at his/her/thier peril. Girrai Singh, Advocate, Seat No. 142 Iazari Courts, Delhi-110054.

Public Notice

iri Daulat Ram S/o Shyam Lal & Sn

amlesh Devi W/o Daulat Ram R/o 169

Public Notice Be it known to general public that my lient Shri Rajender Singh S/o Shri Shambhu Daval And His Wife Smt

Shakuntla Devi R/o G-22/283, Sector-7 Rohini, Delhi-110085 have severed al heir relations with his son Deepak Sain and have disowned and debarred his from all their movable and immovable roperties by this public notice. Deepak aini is out of control of my clients and s in the company of bad elements. I ybody deals with him, shall do so is/her own risk, cost and consequences My client shall not be responsible for his any act or conduct in any manne whatsoever. Rajendra Advocate. Pocket D-10, Flat No. 60

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत वितरण मण्डल फर्रुखाबाद

से निरस्त किया जाता है। (राकेश वर्मा), अभियन्ता, विद्युत मण्डल, वितरण निगम लि., फर्रुखाबाद

निविदा निरस्तीकरण

एतद्द्वारा ई–निविदा संख्य 17 / EDC(F) / 2020-21 18 / EDC(F) / 2020-2119 / EDC(F) / 2020-21 20 / EDC(F) / 2020-21 एवं 21 / EDC(F) / 2020-21 जो निर्धारित तिथि 27.07.2020 को 12.00 बजे तक अपलोड करना तथा 27.07.2020 को 14.00 बजे को सार्वजनिक रूप से खोली जानी थी, को अपरिहार्य कारणे अधीक्षण वितरण दक्षिणांचल विद्युत

दिनांक: 23.07.2020 कम्पनी सचिव

उपरोक्त जानकारी मांगी गई है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अगर 30 हैं जब कि वे ऑनलाइन पढाई करा जुलाई तक मांगी गई जानकारी प्राप्त कर पहले से ज्यादा समय दे रहे हैं। मंच ने अब उनकी मदद करने का नहीं हुई तो प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील लगाकर जानकारी यूथ सोसायटी हरियाणा ने किया पौधारोपण

वीर अर्जुन संवाददाता

फरीदाबाद। यूथ सोसायटी हरियाणा द्वारा एन.एच.तीन स्थित बौद्ध विहार पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तत्पश्चात एन.एच. तीन सैनिक कालोनी मस्जिद चौक पर लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करते हुए सैनेटाईज व मास्क का भी वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जरीफ कुरैशी व विजय भड़ाना विशेष रूप से मौजूद थे।

इस अवसर पर यूथ सोसायटी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक डी. स्टार, सहसचिव हिमान्श् अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजन रॉय ने बताया कि सोसायटी ने आज लगभग 200 पौधे बौद्ध विहार स्थित पार्क में लगाए साथ ही एन एच तीन मुख्य मार्ग पर भी 100 पौधे नीम, बढ़, पीपल, आम,

FFFF

यूथ सोसायटी हरियााणा के अध्यक्ष सुरेश सिंह, जरीफ कुरैशी, विजय भडाना एन.एच. तीन स्थित बौद्ध विहार पार्क में पौधा लगाते हुए।

सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश सिंह ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए

अमरूढ व जामुन लगाए गए। कहा कि पिछले वर्ष उन्होंने पूर्व डीजीपी डीजीपी श्री मधुर ने प्रत्येक पौधा लेने वाले

शील मधुर के नेतृत्व में डबुआ कालोनी स्थित लैजरवैली पार्क में तुलसी के पौधे वितरित किए थे। इस अवसर पर पूर्व

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि जरीफ

क्रैशी ने कहा कि जिले में बढ़ते प्रदुषण

को कम करने के लिए प्रत्येक शहर वासी

को हर बरसाती सीजन में कम से कम 10 ऑक्सीजन देने वाले पौधे खुले मैदानों, पार्कों व सड़क किनारे लगाने चाहिए तथा इन पौधों की कम से कम 10 माह तक बच्चों की तरह देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद यूथ सोसायटी के हरियाणा के सदस्य एन.एच. स्थित सैनिक कालोनी मस्जिद मोड पर पहुंचे तथा वहां से गुजर रहे वाहन चालकों व राहगीरों को कोरोना महामारी से बचाव के तरीके बताए तथा सैनेटाईजर व

ny client severe all relation with them and discowned from all of his movables and immovable's properties in Delhi and Native place and in future my clien hall not be responsible for any acts done by them i Vineet Jain, Advocate, Ch. No. 64, Civil Side, Ti Hazari Courts, Delhi-110054. **Public Notice**

पत्रांकः 1119 / 23.07.2020